



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्रतिष्ठानिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16—जुलाई 22, 2005 (आषाढ़ 25, 1927)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16—JULY 22, 2005 (ASADHA 25, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय उपचर्या परिषद

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 27 जून 2005

सं.-11-1/2004-वा. उ. प. म. भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम 1947 (1947 का 48) की धारा 10 के अधीन भारतीय उपचर्या परिषद की दिनांक 30 अप्रैल 2005 को हुई बैठक में पारित संकल्प द्वारा दी गई निम्नलिखित घोषणा, को उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन घोषित द्वारा प्रकाशित किया जाता है: नामतः

उत्तरांचल स्टेट मेडिकल फेकल्टी, उत्तरांचल स्टेट मेडिकल फेकल्टी, देहरादून को कि ए. एम. तथा जी. एन. एम. अर्हताएं प्रदान देहरादून द्वारा प्रदत्त ए. एम. एम. तथा कर्करेखे प्रयोजन के लिए उत्तरांचल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकरण है, ने भारतीय उपचर्या जी. एन. एम. अर्हताओं को मान्यता देना परिषद अधिनियम 1947 (1947 का 48) के अधीन भारतीय उपचर्या परिषद से आवेदन कि यह कि कि कर्करेखे द्वारा प्रदत्त ए. एम. एम. तथा जी. एन. एम. अर्हताओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी जाए।

अब अधिनियम की इस प्रयोजन के लिए हुई बैठक में यह पारित किया कि निम्नलिखित अर्हताएं यदि यह 30 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात् प्रदान की जाती है तो उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त अर्हताएं होगी नामतः

“उत्तरांचल स्टेट मेडिकल फेकल्टी, देहरादून द्वारा 30 अप्रैल 2005 को अथवा इसके पश्चात् प्रदत्त ए. एम. एम. तथा जी. एन. एम. अर्हताएं”

श्रीमती शशि किरन चुग
सचिव

सं.-11-1/2004-भा. उ. प.--भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम 1947 (1947 का 48) की धारा 10 के अधीन भारतीय उपचर्या परिषद की दिनांक 30 अप्रैल 2005 की हुई बैठक में पारित संकल्प द्वारा दी गई निम्नलिखित घोषणा को, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, नामतः

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, रायपुर द्वारा प्रदत्त ए. एन. एम. तथा जी. एन. एम. अर्हताओं को मान्यता देना।

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, रायपुर जोकि ए. एन. एम. तथा जी. एन. एम. अर्हताएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राधिकरण है, ने भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम 1947 (1947 का 48) के अधीन गठित भारतीय उपचर्या परिषद से आवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रदत्त ए. एन. एम. तथा जी. एन. एम. अर्हताओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए।

अब, परिषद की इस प्रयोजन के लिए हुई बैठक में यह पारित किया कि निम्नलिखित अर्हताएं यदि 30 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात् प्रदान की जाती है तो उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त अर्हताएं होगी नामतः

“छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, रायपुर द्वारा 30 अप्रैल 2005 को अथवा इसके पश्चात् प्रदत्त ए. एन. एम. तथा जी. एन. एम. अर्हताएं।

श्रीमती शशि किरन चुग
सचिव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक

सं. के.भ.नि.आ./समन्वय/12/1/2005/अधिसूचना/एन.जेड/डब्ल्यूबी--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाये।

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	कवरेज की तिथि	सहमति की तिथि
1.	डब्ल्यूबी/30869	मै. कोरल एन्टरप्राइज	1.11.02	1.11.02
2.	डब्ल्यूबी/43089	मै. सुपर अयते उतजक	1.11.04	7.12.04
3.	डब्ल्यूबी/30876	मै. राजा इंजीनियरिंग	1.11.02	1.11.02
4.	डब्ल्यूबी/31072	मै. कुशमंडी एस के यू एस लि. (मिनी बैंक)	1.7.03	1.7.03
5.	डब्ल्यूबी/31222	मै. इमेनुअल नर्सरी	1.7.04	1.7.04
6.	डब्ल्यूबी/31249	मै. एन. के. इलैक्ट्रीकल्स	1.10.04	1.10.04
7.	डब्ल्यूबी/38423	मै. वीनस एन्टरप्राइज	9.10.02	9.10.02
8.	डब्ल्यूबी/30870	मै. नेहा एन्टरप्राइज	5.11.02	5.11.02
9.	एएस/5564	मै. तरुण डेका	10.12.04	10.12.04

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

डॉ. ए. के. चण्डोक
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2005

सं. रा.स.वि.नि.-1--1/88-प्रशा.--राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सेवा विनियम, 1967 के नियम-7-क के द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम के प्रबन्ध मंडल ने 1 मार्च, 2005 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि सहायक निदेशक के संबंध में सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु मौजूदा प्रावधान के नीचे "नियुक्ति का तरीका" के कालम-7 के अन्तर्गत निम्नलिखित उपबंध सम्मिलित किया जाये :--

"किन्तु यह प्रावधान किया गया है कि सीधी भर्ती पद के विरुद्ध उस उम्मीदवार को, जिसने प्रबंध प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्रबंध प्रशिक्षण संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया हो, अनारक्षित पदों के विरुद्ध सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।"

उपर्युक्त संशोधन 1 मार्च, 2005 से लागू होगा।

दिनेश राय
प्रबंध निदेशक

INDIAN NURSING COUNCIL

New Delhi-110 002, the 27th June 2005

No. 11-1/2004-INC—The following declaration made by a resolution passed at a meeting of the Indian Nursing Council held on 30th April 2005 under Section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947) is hereby published, as required by Sub-section (1) of Section 15 of the said Act, namely :—

Recognition of the Auxiliary Nurse Midwives and General Nursing & Midwifery qualification granted by the Uttranchal State Medical Faculty on or after 30th April 2005.

WHEREAS, the Uttranchal State Medical Faculty, Dehradun being an authority recognized by the Govt. of Uttranchal for granting Auxiliary Nurse Midwives and General Nursing & Midwifery has applied to the Indian Nursing Council constituted under the INC act, 1947 (48 of 1947) as amended that the qualification granted by it in Auxiliary Nurse Midwives and General Nursing & Midwifery be recognized for the purpose of the said Act :

NOW, the Council at its meeting held on 30th April 2005 for the said purpose resolved that the following qualification when granted on or after 30th April 2005 shall be recognized qualifications for the purpose of the Act, namely :

"Auxiliary Nurse Midwives and General Nursing & Midwifery qualification granted by the Uttranchal State Medical Faculty, Dehradun on OR after 30th April 2005".

No. 11-1/2004-INC—The following declaration made by a resolution passed at a meeting of the Indian Nursing Council held on 30th April 2005 under Section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947) is hereby published, as required by Sub-section (1) of Section 15 of the said Act, namely :—

Recognition of the Auxiliary Nurse Midwives and General Nursing & Midwifery qualification granted by the Chhattisgarh Nurses Registration Council, Raipur on or after 30th April 2005.

WHEREAS, the Chhattisgarh Nurses Registration Council, Raipur being an authority recognized by the Govt. of Chhattisgarh for granting Auxiliary Nurse Midwives and General Nursing & Midwifery has applied to the Indian Nursing Council constituted under the INC Act, 1947 (48 of 1947) as amended that the qualification granted by it in Auxiliary Nurse Midwives and General Nursing & Midwifery be recognized for the purpose of the said Act :

NOW, the Council at its meeting held on 30th April 2005 for the said purpose resolved that the following qualification when granted on or after 30th April 2005 shall be recognized qualifications for the purpose of the Act, namely :—

"Auxiliary Nurse Midwives and General Nursing & Midwifery qualification granted by the Chhattisgarh Nurses Registration Council, Raipur on OR after 30th April 2005".

Mrs. SHASHI K. CHUGH
Secretary

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (HEAD OFFICE)

New Delhi-66, the 2005

No. C.P.F. C/co-ord./12/1/2005/Notification/EZ.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :

S. No.	Code No.	Name of estt.	Date of Coverage	Date of Consent
1.	WB/30869	M/s. Coral Enterprise	01.11.02	01.11.02
2.	WB/43089	M/s. Super Cleaners	01.11.04	07.12.04
3.	WB/30876	M/s. Raja Engineering	01.11.02	01.11.02
4.	WB/31072	M/s. Kushmandi S.K.U.S. Ltd. (Mini Bank)	01.07.03	01.07.03
5.	WB/31222	M/s. Emmanuel Nursery	01.07.04	01.07.04
6.	WB/31249	M/s. N. K. Electricals	01.10.04	01.10.04
7.	WB/38423	M/s. Venus Enterprises	09.10.02	09.10.02
8.	WB/30870	M/s. Neha Enterprise	05.11.02	05.11.02
9.	AS/5564	M/s. Tarun Deka	10.12.04	10.12.04

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

Dr. A. K. CHANDOK
Regional P. F. Commissioner (C)

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

New Delhi, the 4th July 2005

No. NCDC :1-1/88-Admn.—In exercise of the powers conferred by Regulation 7-A of National Cooperative Development Corporation Service Regulation, 1967, the Board of Management of the Corporation in its meeting held on 1-3-2005 has decided that in the recruitment rules for the post of Assistant Director the following proviso be added under column-7 of "Method of Recruitment" below the existing provision for direct recruitment/promotion :

"Provided that against direct recruit post, a candidate who has satisfactorily completed management training as a Management Trainee may be appointed to the post of Assistant Director against un-reserved posts."

The above amendment will be effective from 1st March, 2005.

DINESH RAI
Managing Director

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

New Delhi, the 1st July 2005 —

CORRIGENDUM

No. 17-1/2004-PCI-3624-72—In the notification of resolution passed in 73rd meeting of the Central Council held in September, 2004 of the Pharmacy Council of India and published in the Gazette of India, No. 49, Part-III—Section-IV, dated 10-12-2004, Page No. 6579 the following corrigendum is issued :—

— In Resolution No. 73/PCI/1363 on Page No. 6579 in respect of Govt. College of Pharmacy, Govt. Polytechnic Campus, Gadge Nagar, Amravati—444 603, in column No. 2 under the heading "For adms. Limited to"—

FOR

READ

60

ARCHNA MUDGAL
Registrar-cum-Secy.